


## गोरखपुर में नकली शराब के धंधे का भंडाफोड़, 19 हजार ढक्कन व 50 लीटर स्पिरिट बरामद



Publish Date: Tue, 12 Jan 2021 03:55 PM (IST) Author: **Satish chand shukla**

कैंपियरगंज पुलिस ने भगवानपुर गांव में दबिश देकर रामकिशुन के पास से नकली क्यूआर कोड का एक रोल देसी शराब के 17000 व विदेशी शराब के 1950 नकली ढक्कन व विभिन्न विदेशी ब्रांडों बोतलों में 50 लीटर नकली शराब व स्पिरिट व एक मोटर साइकिल बरामद किया।

**गोरखपुर, जेएनएन।** कैंपियरगंज में आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली शराब के धंधे का भंडाफोड़ किया है। टीम ने मुख्य आरोपित रामकिशुन निवासी ग्राम भगवानपुर थाना कैंपियरगंज के पास से करीब 19 हजार देसी व विदेशी शराब की ढक्कन व 50 लीटर नकली शराब व स्पिरिट बरामद किया है। पुलिस आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है।

### **भाई के साथ घर से नकली शराब का धंधा करता था रामकिशुन**

आबकारी टीम को सूचना मिली थी कि रामकिशुन बड़े पैमाने पर नकली शराब का कारोबार करता है। टीम ने कैंपियरगंज पुलिस के साथ संयुक्त रूप से भगवानपुर गांव में दबिश देकर रामकिशुन के पास से नकली क्यूआर कोड का एक रोल, देसी शराब के 17000 व विदेशी शराब के 1950 नकली ढक्कन व विभिन्न विदेशी ब्रांडों बोतलों में 50 लीटर नकली शराब व स्पिरिट व एक मोटर साइकिल बरामद किया। रामकिशुन ने टीम को बताया कि वह व उसका भाई रामविशुन मिलकर इस धंधे का संचालन करते थे। टीम की भनक लगते ही उसका भाई रामविशुन मौके से फरार हो गया।

कैंपियरगंज पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध धारा 60/72 आबकारी अधिनियम, 54/63 कापीराइट अधिनियम व धारा 120बी, 272, 419, 420, 467, 468, 471 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर रामकिशुन को जेल भेज दिया, जबकि रामविशुन फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। आबकारी टीम में निरीक्षक मिथिलेश कुमार, अरविंद मिश्र, राकेश त्रिपाठी, आबकारी प्रवर्तन दल में पीयूष विक्रम, रेखा श्रीवास्तव, निर्झरिणी पांडेय, कैंपियरगंज थाने के उपनिरीक्षक अमर नाथ यादव आदि मौजूद रहे।

### **आटो चालक की अंगूली काटने वाला गिरफ्तार**

आटो चालक की अंगूली काटने वाले बडगो निवासी आकाश गौड़ को रामगढ़ताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोपहर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। सीओ कैट सुमित शुक्ल ने बताया कि काशीराम शहरी आवासीय योजना में रहने वाला फकरुद्दीन आटो चलाता है। रविवार की शाम रुस्तमपुर में उसकी आटो पर बैठे बडगो आकाश गौड़ ने किराया मांगने पर फावड़े से फकरुद्दीन पर हमला कर दिया। जिसमें उसके बाएं हाथ की अंगूली कट गई थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

Source: <https://www.jagran.com/news/state-exposure-of-fake-liquor-business-in-gorakhpur-21264075.html>